

**प्रस्ताव**  
**मेरा नाम, मेरी पहचान राष्ट्रीय अभियान**  
**के लिए समर्थन को मान्यता देना**

**सांता क्लारा काउंटी बोर्ड ऑफ एज्युकेशन**  
**प्रस्ताव संख्या**

**जबकि**, सांता क्लारा काउंटी ऑफिस ऑफ एज्युकेशन, मेरा नाम, मेरी पहचान अभियान के लिए एक राष्ट्रीय मंच स्थापित करने में नेशनल एसोसिएशन फॉर बाइलिंग्वुल एज्युकेशन के साथ शामिल होने पर गौरव महसूस कर रहा है; और

**जबकि**, मेरा नाम, मेरी पहचान अभियान हमारे स्कूलों और समुदायों में एक ऐसी सम्मानजनक संस्कृति का निर्माण करने का अवसर है जो विविधता को महत्व देती है और वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देती है; और

**जबकि**, यह अभियान सांस्कृतिक संदर्भों के भीतर नामों के बारे में कहानियों को साझा करने, स्कूल समुदायों में एक सम्मानजनक और समावेशी माहौल बनाने के लिए कार्रवाई करने, और व्यक्तियों को छात्रों के नाम का सही ढंग से उच्चारण करने की प्रतिज्ञाएं करने के लिए प्रेरित करने और उन नामों के पीछे की कहानी जानने पर ध्यान केंद्रित करता है; और

**जबकि**, छात्रों के नाम का सही ढंग से उच्चारण करना छात्रों और परिवारों का सम्मान करने, उनकी प्रशंसा करने, तथा उनके साथ जुड़ने, स्कूल में अपनेपन की भावना को मजबूत बनाने, छात्रों के आत्म-विश्वास और अपनी खुद की पहचान की भावना को बढ़ावा देने, विविधता के महत्व को पहचानने, अधिक छात्रों को बहुमुखी बनने के लिए प्रोत्साहित करने, और हमारे वैश्विक समुदाय में सांस्कृतिक और भाषा के बारे में जागरूकता का निर्माण करने के लिए एक अवसर पैदा करने की ओर पहला कदम है; और

**जबकि**, किंडरगार्टन से लेकर बारहवें ग्रेड तक, 108,367 से अधिक छात्रों के द्वारा, जो कि सांता क्लारा काउंटी की जनसंख्या या 39 प्रतिशत हैं, कम से कम 58 भाषाएं बोली जाती हैं; और

**जबकि**, सांता क्लारा काउंटी के ऑफिस ऑफ एज्युकेशन का मानना है कि मेरा नाम, मेरी पहचान अभियान ऐसे कौशलों और मानसिकता को बढ़ावा देने का एक ठोस आधार तैयार करता है, जो हमारे छात्रों को सशक्त वैश्विक नागरिक बनने के सशक्त बनाएगा;

**अब, इसलिए, यह प्रस्ताव दिया जाता है**, कि सांता क्लारा काउंटी बोर्ड ऑफ एज्युकेशन और काउंटी सूपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ स्कूल्स **मेरा नाम, मेरी पहचान अभियान** की स्थापना का समर्थन और पुष्टि करता है।

3 फरवरी 2016 को आयोजित की गई एक मीटिंग में सांता क्लारा काउंटी बोर्ड ऑफ एज्युकेशन के द्वारा, निम्नलिखित मतों के साथ **पारित किया गया और अपनाया गया**:

हां:  
नहीं:  
मत नहीं दिया:  
अनुपस्थित:

---

Rosemary Kamei, अध्यक्ष  
सांता क्लारा काउंटी बोर्ड ऑफ एज्युकेशन

---

Mary Ann Dewan, Ph.D.  
काउंटी सूपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ स्कूल्स